



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2019 (आषाढ 17, शक संवत् 1941)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये:-

- (1) श्री मनोहर पर्रिकर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (2) कुमारी विमला वर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (3) श्री शिवनारायण मीणा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (4) श्री सुन्दरलाल तिवारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (5) श्रीमती गंगाबाई उरैती, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्री विजय कुमार पाटनी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) श्री सतीश कुमार चौहान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (8) श्रीमती मीरा धुर्वे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री बलराम सिंह ठाकुर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) नक्सली एवं आतंकी हमले में शहीद प्रदेश के जवान तथा
- (11) स्वामी सत्य मित्रानंद, भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्थापक.

सर्वश्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने भी शोकोदगार व्यक्त किये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2019 (आषाढ 18, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 8 जुलाई, 2019

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा